

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी २६, १९६८/माघ ६, १८८९

No 17] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 26, 1968/MAGHA 6, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATIONS

New Delhi the 26th January 1968

No. 31/9/67-Ad. IIIB—The President is pleased on the occasion of Republic Day, 1968 to award an Appreciation Certificate for specially distinguished record of service to —

Shri J N Ramchandani Preventive Inspector, Custom House, Bombay

2 This award is made under clause (a)(i) of para 1 of the Scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs Central Excise and Land Customs Departments, published in Part I Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No 12/13^o/59Ad IIIB dated the 5th November, 1962

No. 31/9/67-Ad.IIIB.—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1968, to award an Appreciation Certificate for specially distinguished record of service to :—

Shri S Sabapathi,
Superintendent of Central Excise,
Central Excise Department,
Madras

2 This award is made under clause (a)(i) of para 1 of the Scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and

Land Customs Departments, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad.IIIB, dated the 5th November, 1962.

No. 31/9/67-Ad.IIIB.—The President is pleased, on the occasion of Republic Day, 1968, to award an Appreciation Certificate for exceptionally meritorious service rendered when undertaking a task even at the risk of his life to:—

Shri K. Vijayan,
Chief Enforcement Officer,
Directorate of Enforcement,
New Delhi.

Statement of services for which the Certificate is awarded:—

On one occasion on 27th December, 1965, Shri Vijayan, singlehanded, kept a desperate person involved in a foreign exchange case, under custody, even at great risk to his own life.

Again, on the 27th April, 1967, in another case involving a substantial amount of foreign exchange, Shri Vijayan was threatened by one of the culprits who pulled out his loaded revolver. Shri Vijayan, though unarmed, unmindful of the risk to his life, pounced on the accused and later with the help of other officers, overpowered him.

2. The award is made under clause (a)(i) of para 1 of the Scheme governing the grant of awards to the officers and staff of the Customs, Central Excise and Land Customs Departments, published in Part I, Section 1, of the Gazette of India Extraordinary Notification No. 12/139/59-Ad.IIIB dated the 5th November, 1962 as extended to the staff of the Directorate of Enforcement vide Ministry of Finance (Deptt. of Revenue) Notification F. No. 31/12/67 Ad.IIIB dated the 15th January, 1968 published in Part I, Section 1, of the Gazette of India Extraordinary dated the 15th January, 1968 and will carry cash allowance as indicated in the Ministry of Finance (Deptt. of Revenue) Notification No. 31/12/67-Ad.IIIB dated the 26th January, 1968 published in Part I, Section 1, of the Gazette of India Extraordinary, dated the 26th January, 1968.

No. F. 31/12/67-Ad. IIB.—In modification of the Government of India Ministry of Finance (Department of Revenue) Notification F. No. 12/139/59-Ad.IIIB published in Part I, Section 1 of the Gazette of India Extraordinary, dated the 5th November, 1962, the President is pleased to decide that a cash allowance of Rs. 25/- per month would be admissible to all Class II Gazetted Officers of the Customs, Central Excise and Narcotics Departments and to all Class II Gazetted officers of the Directorate of Enforcement along with the "Appreciation Certificate" awarded for the first time to such officers under para (a) (i) of the abovementioned Notification. Additional allowance of Rs. 12/- p.m. for a fresh act of meritorious service would also be admissible.

2. These orders will take effect from 26th January, in the year one thousand nine hundred and sixty eight but the allowance will be granted from the date of the meritorious act for which the award is given.

S. K. BHATTACHARJEE, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व तथा बीमा विभाग)

अभिसूचनार्थ

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 1968

सं० 31/0/67-ए०डी०3 बी०.—राष्ट्रपति जी, गणतन्त्र दिवस 1968 के अवसर पर निम्नलिखित अवसर को उनकी उल्लेखनीय विशिष्ट सेवाओं के लिये यह प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं:—

श्री जे० एन० रामचन्दानी,
निरोधकार्य निरीक्षक,
सीमाशुल्क गृह,
बम्बई ।

2. यह पुरस्कार सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा स्थल सीमाशुल्क विभागों के अफसरों और कर्मचारियों को पुरस्कार देने से सम्बन्धित योजना की कण्डिका 1 के खण्ड (क) (ii) के अन्तर्गत दिया जाता है। यह योजना भारत के गजट असाधारण के भाग I खण्ड 1 में अधिसूचना संख्या 12/139/59-ए० डी०-3 बी०, दिनांक 5 नवम्बर, 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी।

सं 31/9/67-ए० डी० 3 बी०.—राष्ट्रपति जी, गणतन्त्र दिवस, 1968 के अवसर पर निम्नलिखित अफसर को उनकी उल्लेखनीय विशिष्ट सेवाओं के लिये यह प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :—

श्री एस० सभापति,
अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क,
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग,
मद्रास।

2. यह पुरस्कार सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा स्थल सीमाशुल्क विभागों के अफसरों और कर्मचारियों को पुरस्कार देने से सम्बन्धित योजना की कण्डिका 1 के खण्ड (क) (ii) के अन्तर्गत दिया जाता है। यह योजना भारत के गजट असाधारण के भाग I खण्ड 1 में अधिसूचना संख्या 12/139/59-ए० डी०-3 बी०, दिनांक 5 नवम्बर, 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी।

सं० 31/9/67-ए० डी०-III बी.—गणतन्त्र दिवस, 1968 के अवसर पर निम्नलिखित अफसर को, अपने जीवन को भी संकट में डालने वाला कार्य करते हुए की गयी असाधारण प्रशस्त सेवा के लिये राष्ट्रपति जी यह प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं :

श्री के० विजयन्,
मुख्य प्रवर्तन अधिकारी,
प्रवर्तन निदेशालय,
नई दिल्ली।

जिन सेवाओं के लिये प्रमाण-पत्र दिया गया उनका विवरण:

27 दिसम्बर, 1965 को श्री विजयन् ने विदेशी मुद्रा के मामले में फंसे एक निराशोन्मत्त व्यक्ति को, अपने जीवन को भारी संकट होते हुए भी, अकेले ही हिरासत में रखा।

पुनः, 27 अप्रैल, 1967 को विदेशी मुद्रा की काफी रकम के सम्बन्ध वाले एक अन्य मामले में, अपराधियों में से एक व्यक्ति ने श्री विजयन् को धमकी दी तथा अपना भरा हुआ रिवाल्वर निकाल लिया। यद्यपि श्री विजयन् निहत्थे थे, तथापि अपने जीवन के प्रति खतरे की परवाह न करते हुए वे दोषी व्यक्ति पर सपट पड़े तथा बाद में अन्य अधिकारियों की सहायता से उसे काबू में कर लिया।

2. यह पुरस्कार सीमा-शुल्क, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा स्थल सीमा शुल्क विभागों के अफसरों और कर्मचारियों को पुरस्कार देने से सम्बन्धित योजना की कण्डिका 1 के खण्ड (क) (i) के अन्तर्गत दिया जाता है, जो भारत के गजट असाधारण के भाग I खण्ड 1 में अधिसूचना संख्या 12/139/59-एडी-III-बी दिनांक 5 नवम्बर, 1962 के रूप में प्रकाशित हुई थी, तथा जिसे भारत के गजट असाधारण दिनांक 15 जनवरी, 1968 के भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की

अधिसूचना संख्या 31/12/67-एडी-III-बी दिनांक 15 जनवरी, 1968 के द्वारा प्रवर्तन निदेशालय पर लागू किया गया है। इस पुरस्कार के साथ, भारत के गजट असाधारण दिनांक 26 जनवरी, 1968 के भाग I खण्ड 1 में प्रकाशित वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 31/12/67-एडी-III-बी दिनांक 26 जनवरी, 1968 में, बताये गये अनुसार नकद भत्ता मिलेगा।

एस० के० भट्टाचार्यजी,
संयुक्त सचिव, भारत सरकार।

MINISTRY OF PETROLEUM AND CHEMICALS

(Department of Petroleum)

ERRATUM

The date of issue of Issue No. 208 of the Gazette of India Extraordinary, Part I—Section 1, containing the Resolution No. 13(38)/66/IOC, dated 27th December 1967 of the Ministry of Petroleum and Chemicals (Department of Petroleum) should be “27th December, 1967” (both Hindi and English) instead of “6th and 23rd December, 1967” respectively.